

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 103]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 14, 1965/वैशाख 24, 1987

No. 103]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 14, 1965/VAISAKHA 24 1987

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT
(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May 1965

S.O. 1564.—The following Order made by the President on May 13, 1965, is published for general information:—

ORDER

In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following amendments in the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

In the said Rules, in the Second Schedule—

(1) under the heading, "Ministry of Education", after entry 66 the following entry shall be inserted, namely:—

"66A. International Congress of Orientalists."; and

(2) under the heading, "Ministry of Petroleum & Chemicals" and sub-heading, "B. Department of Chemicals", entry 17 shall be omitted.

S. RADHAKRISHNAN,

President

13-5-1965

[No. 74/7/CF-65.]

N. SAHGAL, Jt. Secy.

(485)

